

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 26, 1979/माघ 6, 1900

No 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1979/MAGHA 6, 1900

इस भाग में विषय पृष्ठ संख्या से जाते हैं जिससे कि यह खलन संकलन को रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1979

सं. ए-21031/12/78-प्रसा.-3-ख :-राष्ट्रपति जी, गणसत्र दिवस 1979 के अवसर पर
सीमा शुल्क विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक को उनकी उल्लेखनीय
विशिष्ट सेवा के लिए यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हैं :-

1. श्री बाबूराव मारुति गोखे,
निरक्षक (मरिष्ठ ग्रंथ),
सीमा शुल्क (निधारक),
बम्बई।

2. श्री टी. वी. शंकर,
आसूचना अधिकारी,
सीमाशुल्क (निवारक),
बम्बई ।

3. स्वर्गीय श्री बापू लक्ष्मण लामखेड़े (मरणोपरान्त),
जमादार, सीमाशुल्क (निवारक),
बम्बई ।

2. ये पुरस्कार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी, उस योजना के पैरा 1 के खण्ड (क) (2) के अंतर्गत दिए जाते हैं जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 12/139/59-प्रशा. 3-ख, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के अंतर्गत प्रकाशित की गई हैं ।

बी. बी. गुजराल, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1979

No. A. 21021/13 '78-Ad. III-B—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1979, to award an Appreciation Certificate for Specially Distinguished Record of Service to each of the under-mentioned officers of the Customs Department :—

- (1) Shri Baburao Maruti Gokhe,
Inspector (Senior Grade),
Customs (Preventive),
Bombay.
- (2) Shri T. V. Shankar,
Intelligence Officer,
Customs (Preventive),
Bombay.
- (3) Late Shri Bapu Laxman Lamkhede, (Posthumously)
Jamadar,
Customs (Preventive),
Bombay.

2. These awards are made under clause (a) (ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B, dated the 5th November, 1962.

B. B. GUJRAL, Additional Secy.